


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2015/चैत्र 9, 1937
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2015/CHAITRA 9, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2015

सा.का.नि. 232(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2015 कहा जाए।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के फार्म 5 में “फार्म 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांचसूची में” क्रम संख्या 8 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के उपरांत निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तर्स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“9. ‘अनुभव’ के अंतर्गत ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म (स्वैच्छिक)”

[फा. सं. 4/2/2014-पी एंड पीडब्ल्यू (समन्वय)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । नियमों का चौथा जुलाई, 1988 तक सही किया गया संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था । उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे—

- | | |
|---|--|
| 1. का. आ. 254, तारीख 4 फरवरी, 1989 | 23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997 |
| 2. का. आ. 970, तारीख 6 मई, 1989 | 24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999 |
| 3. का. आ. 2467, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 | 25. का.आ. 904(अ), तारीख 30 सितंबर, 2000 |
| 4. का. आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990 | 26. का.आ. 717 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2001 |
| 5. का. आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990 | 27. सा.का.नि. 75 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2002 |
| 6. का. आ. 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990 | 28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002 |
| 7. का. आ. 3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990 | 29. का.आ. 860 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2003 |
| 8. का. आ. 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990 | 30. का.आ. 1483 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003 |
| 9. का. आ. 3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990 | 31. का.आ. 1487 (अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2005 |
| 10. का. आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991 | 32. सा.का.नि. 723 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2006 |
| 11. का. आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991 | 33. का.आ. 1821 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2007 |
| 12. का. आ. 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991 | 34. सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008 |
| 13. का. आ. 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991 | 35. का.आ. 1028 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008 |
| 14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991 | 36. का.आ. 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010 |
| 15. सा.का.नि. 39, तारीख 1 फरवरी, 1992 | 37. सा.का.नि.176, तारीख 8 जून, 2011 |
| 16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992 | 38. सा.का.नि. 928 (अ), तारीख 26 दिसंबर, 2012 |
| 17. सा.का.नि. 570, तारीख 19 दिसंबर, 1992 | 39. सा.का.नि. 938 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2012 |
| 18. का. आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993 | 40. सा.का.नि. 103(अ), तारीख 21 फरवरी, 2014 |
| 19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993 | 41. सा.का.नि. 138 (अ), तारीख 3 मार्च, 2014 |
| 20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितंबर, 1993 | 42. सा.का.नि. 233 (अ), तारीख 28 मार्च, 2014 |
| 21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993 | 43. सा.का.नि. 628 (अ), तारीख 1 सितंबर, 2014 |
| 22. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994 | |

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2015

G.S.R. 232(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in Form 5, under the heading “Check List of Documents to be submitted along with Form 5”, after serial number 8 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

“9. Form for submitting details under ‘Anubhav’ (optional)”

[F. No. 4/2/2014-P&PW(Coord.)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 934, dated the 1st April, 1972. The Fourth Edition of the rules corrected up to July, 1988 was published in the year of 1988. The said rules were subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

- | | |
|--|--|
| 1. S.O. 254, dated the 4th February, 1989 | 25. S.O. 904(E), dated the 30th September, 2000 |
| 2. S.O. 970, dated the 6th May, 1989 | 26. S.O. 717(E), dated the 27th July, 2001 |
| 3. S.O. 2467, dated the 7th October, 1989 | 27. G.S.R. 75(E), dated the 1st February, 2002 |
| 4. S.O. 899, dated the 14th April, 1990 | 28. S.O. 4000, dated the 28th December, 2002 |
| 5. S.O. 1454, dated the 26th May, 1990 | 29. S.O. 860(E), dated the 28th July, 2003 |
| 6. S.O. 2329, dated the 8th September, 1990 | 30. S.O. 1483 (E), dated the 30th December, 2003 |
| 7. S.O. 3269, dated the 8th December, 1990 | 31. S.O. 1487 (E), dated the 14th October, 2005 |
| 8. S.O. 3270, dated the 8th December, 1990 | 32. G.S.R. 723(E), dated the 23rd November, 2006 |
| 9. S.O. 3273, dated the 8th December, 1990 | 33. S.O. 1821 (E), dated the 25th October, 2007 |
| 10. S.O. 409, dated the 9th February, 1991 | 34. G.S.R. 258 (E), dated the 31st March, 2008 |
| 11. S.O. 464, dated the 16th February, 1991 | 35. S.O. 1028 (E), dated the 25th April, 2008 |
| 12. S.O. 2287, dated the 7th September, 1991 | 36. S.O. 829(E), dated the 12th April, 2010 |
| 13. S.O. 2740, dated the 2nd November, 1991 | 37. G.S.R. 176, dated the 11th June, 2011 |
| 14. G.S.R. 677, dated the 7th December, 1991 | 38. G.S.R. 928(E), dated the 26th December, 2012 |
| 15. G.S.R. 39, dated the 1st February, 1992 | 39. G.S.R. 938(E), dated the 27th December, 2012 |
| 16. G.S.R. 55, dated the 15th February, 1992 | 40. G.S.R. 103(E), dated the 21st February, 2014 |
| 17. G.S.R. 570, dated the 19th December, 1992 | 41. G.S.R. 138(E), dated the 3rd March, 2014 |
| 18. S.O. 258, dated the 13th February, 1993 | 42. G.S.R. 233(E), dated the 28th March, 2014 |
| 19. S.O. 1673, dated the 7th August, 1993 | 43. G.S.R. No. 628(E), dated the 1st September, 2014 |
| 20. G.S.R. 449, dated the 11th September, 1993 | |
| 21. S.O. 1984, dated the 25th September, 1993 | |
| 22. G.S.R. 389(E), dated the 18th April, 1994 | |
| 23. S.O. 1775, dated the 19th July, 1997 | |
| 24. S.O. 259, dated the 30th January, 1999 | |